



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9—सितम्बर 15, 2017 (भाद्रपद 18, 1939)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9—SEPTEMBER 15, 2017 (BHADRA 18, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2017

सेना शाखा

सं. 178, दिनांक 6 जुलाई 2017—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

थलसेना विभाग (एम जी ओ)

इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजिनियरिंग कर्मिक

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

बलवीर सिंह	(14616610 के अब जेसी—773943 एन)	01 मार्च 2017
बिदेशी कुमार बेहरा	(14616426 वाई अब जेसी—773942 एल)	01 मार्च 2017
जगमोहन	(14616393 वाई अब जेसी—773941 एच)	01 मार्च 2017
संकर साहु	(14616765 वाई अब जेसी—773945 वाई)	01 मार्च 2017

कूलदीप कुमार	(14616688 पी अब जेसी—773944 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
जितेन्द्र सिंह	(14617405 पी अब जेसी—774032 के)	01 मार्च 2017
दिना नाथ सिंह	(14616902 एम अब जेसी—774031 एफ)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में		
नगाभाईरु राजेश बाबु	(14632992 एच अब जेसी—773760 एक्स)	03 मार्च 2017 / 10 दिसम्बर 2016
प्रमोद कुमार	(14635833 डब्ल्यू अब जेसी—773953 एक्स)	01 मार्च 2017
के सम्पाधू	(14635899 एम अब जेसी—773954 ए)	01 मार्च 2017
अनिल कुमार	(14635810 पी अब जेसी—773951 एम)	01 मार्च 2017
राम गोपाल सैन	(14636763 पी अब जेसी—774021 एक्स)	01 मार्च 2017
श्री प्रकाश सिंह	(14636643 डब्ल्यू अब जेसी—774022 ए)	01 मार्च 2017
धानिश आई वी	(14636500 डब्ल्यू अब जेसी—774015 के)	01 मार्च 2017
मोहिते कृष्णा श्रीपति	(14635210 एम अब जेसी—773949 पी)	01 मार्च 2017
भरत कुमार	(14635787 एम अब जेसी—773960 एन)	01 मार्च 2017
अमिया खुतिया	(14635717 एन अब जेसी—773958 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
प्रेम सिंह	(14635794 एच अब जेसी—774017 पी)	01 मार्च 2017
अदित्य कुमार शर्मा	(14635816 डब्ल्यू अब जेसी—773952 पी)	01 मार्च 2017
मोहित कुमार	(14636359 ए अब जेसी—773955 एच)	01 मार्च 2017
पबित्रा सरकार	(14629175 वाई अब जेसी—773635 एन)	20 फरवरी 2017 / 01 दिसम्बर 2016
अरुन कुमार पटेल	(14636510 ए अब जेसी—774016 एम)	01 मार्च 2017
सिवलिंगम एस	(14635563 एम अब जेसी—773956 एल)	01 मार्च 2017
सुधीश कुमार सी	(14636072 एच अब जेसी—774014 एफ)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक अफ्टो के रैंक में		
सम्पतिराव शनमूखाराव	(14654689 एफ अब जेसी—773979 एम)	01 मार्च 2017
सुभास चन्द्र साहा	(14643353 एफ अब जेसी—773968 ए)	01 मार्च 2017
शाहुल हामीद आई	(14645303 पी अब जेसी—773969 एच)	01 मार्च 2017
ईमरान खान	(14654153 एल अब जेसी—773973 एल)	01 मार्च 2017
देवी दयाल	(14653866 के अब जेसी—773970 एक्स)	01 मार्च 2017
देवेन्दर कुमार	(14653306 एक्स अब जेसी—773971 ए)	01 मार्च 2017
विनेश	(14654721 एल अब जेसी—773980 एफ)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में		
बिजय कुमार अंचल	(14632791 के अब जेसी—773989 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
उमा संकर साहु	(14633526 ए अब जेसी—774000 एफ)	01 मार्च 2017

कावलि अप्पाला राजु	(14633015 डब्ल्यू अब जेसी—773994 एफ)	01 मार्च 2017
खैरनर गोरख भिवासन	(14632894 एच अब जेसी—773991 एन)	01 मार्च 2017
राजेश सी पी	(14618281 एक्स अब जेसी—773990 एल)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक रडार के रैंक में		
असिस कुमार पघि	(14658699 एच अब जेसी—774028 एफ)	01 मार्च 2017
पांडे शैलेश के के	(14658645 एफ अब जेसी—774027 वाई)	01 मार्च 2017
देलनोय पसकॅल	(14652294 एफ अब जेसी—773917 एम)	16 फरवरी 2017 / 04 फरवरी 2017
नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में		
विजय कुमार बडगुजर	(14630004 वाई अब जेसी—773983 पी)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक एस ए के रैंक में		
शैजु एस	(14647058 डब्ल्यू अब जेसी—773988 एन)	01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में		
रमश राय यादव	(14616322 एक्स अब जेसी—773940 ए)	01 मार्च 2017
अरुन कुमार	(14616321 पी अब जेसी—773939 एल)	01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार अटो टेक (वी व्हीकल)के रैंक में		
उदय कांता झॉ	(14620073 एफ अब जेसी—773788 एक्स)	01 फरवरी 2017
संजय कुमार मोरिया	(14620408 एन अब जेसी—773791 एक्स)	01 फरवरी 2017
बिपिन कुमार	(14620546 पी अब जेसी—773930 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
नरेश सिंह	(14620585 एन अब जेसी—773931 वाई)	01 मार्च 2017
प्रम्बिर कुमार भत्ताचर्या	(14620563 पी अब जेसी—773932 एफ)	01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में		
अजय कुमार पटेल	(14636292 एम अब जेसी—773962 वाई)	01 मार्च 2017
जय प्रकाश राय	(14635771 एफ अब जेसी—773959 वाई)	04 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
थिमप्पा एम एन	(14635323 पी अब जेसी—773957 एन)	01 मार्च 2017
रमाशीश यादव	(14636733 एक्स अब जेसी—774020 पी)	01 मार्च 2017
लालदीन	(14636626 डब्ल्यू अब जेसी—774034 पी)	09 मार्च 2017 / 01 जुलाई 2016
बाबा राव	(14635551 एक्स अब जेसी—773950 के)	01 मार्च 2017
नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में		
मुकेश कुमार	(14630383 ए अब जेसी—773982 एम)	01 मार्च 2017

रजनी कांत	(14635875 एच अब जेसी—773986 एच)	01 मार्च 2017
रमेश	(14634994 एम अब जेसी—773984 एक्स)	01 मार्च 2017
	नायब सूबेदार एम टेक अण्टो के रैंक में	
प्रदीप कुमार पी एस	(14654400 एन अब जेसी—773974 एन)	01 मार्च 2017
कृष्णा कुमार पांडे	(14654651 एक्स अब जेसी—773976 वाई)	01 मार्च 2017
	नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट के रैंक में	
सतबेन्द्र कुमार यादव	(14642099 डब्ल्यू अब जेसी—774004 एक्स)	01 मार्च 2017 / 04 फरवरी 2017
	नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में	
मनोरंजन बेहरा	(14633606 एक्स अब जेसी—773998 एक्स)	01 मार्च 2017
रबी कुमार पधी	(14633520 वाई अब जेसी—773997 पी)	01 मार्च 2017
	नायब सूबेदार एम टेक रडार के रैंक में	
बाल मुकुंद सिंह	(14657975 एन अब जेसी—773915 वाई)	13 फरवरी 2017 / 04 फरवरी 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार क्लर्क एस डी के रैंक में	
अशोक कुमार	(14634063 एच अब जेसी—773946 एफ)	01 मार्च 2017
अशोक कुमार डोगरा	(14617825 पी अब जेसी—774035 एक्स)	02 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में	
मतबर सिंह	(14634048 एन अब जेसी—773657 एम)	03 मार्च 2017 / 26 नवम्बर 2016
हरिदास सिन्हा	(14630147 वाई अब जेसी—773644 पी)	09 जनवरी 2017 / 01 दिसम्बर 2016
गजराज सिंह वर्मा	(14634606 के अब जेसी—773879 एफ)	01 फरवरी 2017
लाल बाबु प्रसाद	(14636563 वाई अब जेसी—774018 एक्स)	01 मार्च 2017
गोविन्द राज आर	(14636648 पी अब जेसी—774023 एच)	03 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
नीलम कुमार	(14636811 के अब जेसी—774036 ए)	11 मार्च 2017 / 02 मार्च 2017
सी अनबारासु	(14628994 डब्ल्यू अब जेसी—773894 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017 / 07 जनवरी 2017
	नायब सूबेदार एम टेक अण्टो के रैंक में	
कैलाश चन्द्र	(14654644 एफ अब जेसी—773975 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
तेज प्रताप सिंह	(14654658 एफ अब जेसी—773977 एफ)	01 मार्च 2017
रथीश आर	(14654827 एक्स अब जेसी—773981 के)	01 मार्च 2017
	नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में	
सुधीर जी	(14632984 के अब जेसी—773992 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
पुछा रमेश	(14633026 एच अब जेसी—773996 एम)	01 मार्च 2017

सिबा संकर साहु	(14633524 पी अब जेसी—773999 ए)	01 मार्च 2017
संदीप पठानिया	(14633427 एक्स अब जेसी—773995 के) नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट के रैंक में	01 मार्च 2017
शामसुद्दीन टी	(14643974 ए अब जेसी—774001 के) नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में	01 मार्च 2017
सुब्रत कुमार साहु	(14635021 एच अब जेसी—773985 ए)	01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार वेलडर के रैंक में	
रवी चौहान	(14620435 एक्स अब जेसी—773934 एम)	01 फरवरी 2017 / 10 दिसम्बर 2017
लभ सिंह	(14620450 एम अब जेसी—773935 पी)	01 मार्च 2017 / 10 जनवरी 2017
बिनोद कुमार पांडे	(14617401 वाई अब जेसी—773937 ए)	01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार टेक कम्युनिकेशन के रैंक में	
मुन्ना प्रसाद सिंह	(14623720 एफ अब जेसी—773928 वाई)	01 मार्च 2017
	नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में	
बूमिनाथन एम	(14639311 एक्स अब जेसी—773929 एफ)	01 मार्च 2013
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में	
सर्वेश कुमार	(14617501 के अब जेसी—774033 एम)	17 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार ड्राईवर एम टी के रैंक में	
उदया नारायण	(14619371 एल अब जेसी—773948 एम)	01 मार्च 2017
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार अटो ईलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में	
प्रेमपाल सिंह टेओटिया	(14618843 के अब जेसी—773963 एफ)	03 मार्च 2017 / 04 फरवरी 2017
	नायब सूबेदार टेक अप्टो ईलेक्ट के रैंक में	
त्रिलोक चंद	(14629896 एच अब जेसी—773933 के)	01 मार्च 2013
*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।		
	नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में	
बिनेश ठाकुर	(14642637 वाई अब जेसी—774008 एन)	01 मार्च 2017
बिरेन्द्र सिंह	(14635302 वाई अब जेसी—773967 एक्स)	01 मार्च 2017 / 04 फरवरी 2017
पवन कुमार यादव	(14642643 एम अब जेसी—774009 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017

जी महेश कुमार	(14642604 एन अब जेसी—774006 एच)	01 मार्च 2017
पवन कोशिक	(14642147 एल अब जेसी—774010 एल)	01 मार्च 2017
धर्मेन्द्र कुमार	(14642593 एम अब जेसी—774012 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
कमलेश खिनचर	(14642441 एल अब जेसी—774011 एन)	01 मार्च 2017
श्रीजेश एम	(14642050 ए अब जेसी—774005 ए)	01 मार्च 2017
ए वेंकटशवलू	(14641104 के अब जेसी—774111 वाई)	01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार अटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

नागेन्द्र चौधुरी	(14620804 के अब जेसी—773795 एन)	01 फरवरी 2017
अरुन कुमार राय	(14620565 ए अब जेसी—774030 वाई)	18 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
बिपिन बिहारि भारती	(14620845 एन अब जेसी—774126 एफ)	01 अप्रैल 2017
संजीव कुमार सी एच	(14620859 एन अब जेसी—774128 एम)	01 अप्रैल 2017
गुनकरा के	(14620620 एल अब जेसी—774129 पी)	01 अप्रैल 2017
किशन लाल	(14620626 एम अब जेसी—774130 के)	01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

मुकेश कुमार सिंह	(14615934 एच अब जेसी—774158 के)	01 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
सी नटराजन	(14614845 एक्स अब जेसी—768096 वाई)	01 मार्च 2013
शिव मोहन सिंह	(14614841 एफ अब जेसी—772033 एन)	08 अक्टूबर 2015 / 01 अक्टूबर 2015

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

दिगम्बर सिंह	(14624959 डब्ल्यू अब जेसी—774154 एन)	01 अप्रैल 2017
--------------	--------------------------------------	----------------

नायब सूबेदार अर्माइन्ट एफ डी के रैंक में

पुसा राम	(14640070 पी अब जेसी—773738 एम)	01 जनवरी 2017
----------	---------------------------------	---------------

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार वेलडर के रैंक में

शिक मस्तानवली	(14620512 एफ अब जेसी—773936 एक्स)	31 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
---------------	-----------------------------------	-------------------------------

नायब सूबेदार मशीनिष्ट के रैंक में

भुबनेश्वर मोहन्ता	(14619683 एफ अब जेसी—774185 एन)	01 अप्रैल 2017
मल्लिक कुतबुद्दीन	(14619685 एम अब जेसी—774195 एक्स)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार ड्राफ्टमेन के रैंक में

जी कोटेश्वरन	(14634015 एच अब जेसी—774189 के)	01 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
--------------	---------------------------------	--------------------------------

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

संतोष कुमार एस	(14641976 एम अब जेसी—774108 वाई)	01 अप्रैल 2017
कैलाश महतो	(14642656 के अब जेसी—774114 एम)	01 अप्रैल 2017
सुमन्ता सिकदार	(14642667 डब्ल्यू अब जेसी—774112 एफ)	01 अप्रैल 2017
अनूप सिंह सूनेर	(14641977 पी अब जेसी—774109 एफ)	01 अप्रैल 2017
केटी नित्यानंदा राव	(14642004 एल अब जेसी—773938 एच)	01 मार्च 2017
धर्म पाल	(14642591 एफ अब जेसी—774110 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
सन्दीप कुमार अदालक	(14639763 ए अब जेसी—774113 के)	01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक में

दिनमनी पाण्डेय	(14644762 एफ अब जेसी—774153 एन)	01 अप्रैल 2017
रजित कुमार दास	(14647787 वाई अब जेसी—774156 वाई)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक ए वी एन (सी एस) के रैंक में

शैख मिनहाज शाहजहाँ	(14661303 वाई अब जेसी—773965 एम)	01 मार्च 2017
--------------------	----------------------------------	---------------

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

अनित कुमार सिंह	(14631612 एम अब जेसी—773898 एम)	22 अप्रैल 2017 / 21 जून 2017
-----------------	---------------------------------	------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में

त्रिषिकेश यादव	(14652329 एम अब जेसी—774187 वाई)	17 अप्रैल 2017 / 01 जुलाई 2016
----------------	----------------------------------	--------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक आप्टो ईलक्ट के रैंक में

दिवाकर मनि त्रिपाठी	(14655592 एच अब जेसी—774059 एफ)	01 अप्रैल 2017
रमेश सिरिपुरम	(14654679 एक्स अब जेसी—773978 के)	21 अप्रैल 2017 / 01 मार्च 2017
ई लोकनाथम	(14657251 डब्ल्यू अब जेसी—774048 पी)	01 अप्रैल 2017
पी बी बाला मूरुगन	(14653346 वाई अब जेसी—773972 एच)	13 अप्रैल 2017 / 01 मार्च 2017

नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में

कासिरेड्डी अप्पाराव	(14639001 एम अब जेसी—774065 पी)	01 अप्रैल 2017
शिंदे इन्द्रभान दत्तात्रया	(14639373 एक्स अब जेसी—774068 एच)	01 अप्रैल 2017
जय किशोर पाण्डेय	(14622369 वाई अब जेसी—774073 एन)	20 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

के नटराजन	(14634359 एफ अब जेसी—774084 ए)	01 अप्रैल 2017
मेरि कृष्णन ए	(14634362 एफ अब जेसी—774085 एच)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक ईलेक्ट के रैंक में

जितेन्द्र कुमार सिंह (14656090 एम अब जेसी—774097 एक्स) 01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार अटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

किशोर कुमार (14620603 एल अब जेसी—774127 के) 01 अप्रैल 2017

छिदानंद पाटिल (14620636 डब्ल्यू अब जेसी—774196 ए) 21 अप्रैल 2017 / 13 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार टेक ओपटो इल्ट के रैंक में

अमर सेवा (14630423 डब्ल्यू अब जेसी—774157 एफ) 04 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार ओटो इल्ट बी व्हीकल के रैंक में

प्रफुल्ल कुमार राना (14619372 एन अब जेसी—774039 एन) 01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेसन के रैंक में

जमागे गोविन्द रामराव (14625066 पी अब जेसी—774155 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एच के टी के रैंक में

के नारायणन (13759880 एल अब जेसी—774162 एम) 01 अप्रैल 2017

मुल्तान सिंह (14633689 एन अब जेसी—774197 एम) 13 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार क्लर्क एस डी के रैंक में

दूर्योधन पाधियारी (14635722 वाई अब जेसी—774149 एच) 01 अप्रैल 2017

पवन कुमार (14664292 एच अब जेसी—774152 एच) 01 अप्रैल 2017

अरुण कुमार यादव (14633089 एल अब जेसी—774287 के) 01 मई 2017

राजेन्द्र सिंह (14633366 एल अब जेसी—774288 एम) 01 मई 2017

ए मुथु पान्डियन (14626499 वाई अब जेसी—774289 पी) 01 मई 2017

मारुथी मसनू (14635633 ए अब जेसी—774284 डब्ल्यू) 01 मई 2017

अजि कुमार एम (14635701 एच अब जेसी—774285 वाई) 01 मई 2017

राधे श्याम (14634157 ए अब जेसी—774133 एक्स) 01 मई 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार अटो ईलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में

तीगला मनमाधा राव (14619363 एम अब जेसी—773908 एल) 11 फरवरी 2017 / 01 फरवरी 2017

श्रीतिवासा एस आर (14629947 एल अब जेसी—773800 एन) 01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

साबू एस (14634037 एफ अब जेसी—773829 डब्ल्यू) 01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

जगादले अतूलनारायण	(14616237 पी अब जेसी—773818 के)	01 फरवरी 2017
विनोद कुमार	(14616315 एफ अब जेसी—773821 के)	10 फरवरी 2017 / 01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

परस राम	(14631970 एक्स अब जेसी—773693 एक्स)	18 जनवरी 2017 / 01 दिसम्बर 2016
सिवा कुमार जे	(14630616 डब्ल्यू अब जेसी—773896 एफ)	02 फरवरी 2017 / 07 जनवरी 2017
महेश प्रसाद सोनि	(14634272 ए अब जेसी—773876 एन)	01 फरवरी 2017
सुरेन्दर	(14633544 एच अब जेसी—773872 एक्स)	01 फरवरी 2017
बिपिन बिहारी मिश्रा	(14632059 एफ अब जेसी—773903 एम)	12 फरवरी 2017 / 21 जनवरी 2017
संजय कुमार दास	(14634082 एन अब जेसी—773905 एक्स)	16 फरवरी 2017 / 01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक इलैक्ट के रैंक में

दिनेश कुमार श्रीपाल	(14637257 डब्ल्यू अब जेसी—773856 ए)	07 फरवरी 2017 / 01 फरवरी 2017
रवी सिंह	(14631663 ए अब जेसी—773850 वाई)	01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक अप्टो के रैंक में

सुकान्त मंडल	(14642918 पी अब जेसी—773846 डब्ल्यू)	13 फरवरी 2017 / 01 फरवरी 2017
--------------	--------------------------------------	-------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक ए व्हीकल के रैंक में

पाटील अनील काशीनाथ	(14632918 एफ अब जेसी—773901 एफ)	01 फरवरी 2017 / 21 जनवरी 2017
मनरंजन साहु	(14634723 पी अब जेसी—773890 ए)	01 फरवरी 2017 / 07 जनवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में

संजीव कुमार	(14656147 डब्ल्यू अब जेसी—773901 एफ)	01 फरवरी 2017 / 24 दिसम्बर 2016
-------------	--------------------------------------	---------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक रडार के रैंक में

मानिकंदन एस	(14652589 एक्स अब जेसी—773918 पी)	13 फरवरी 2017 / 04 फरवरी 2017
सुमन देवनाथ	(14653782 डब्ल्यू अब जेसी—773919 एक्स)	13 फरवरी 2017 / 04 फरवरी 2017
बी सुरज	(14655814 एम अब जेसी—773923 ए)	13 फरवरी 2017 / 04 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

साम शाजी	(14616339 एल अब जेसी—773819 एच)	01 फरवरी 2017
चितरंजन राय	(14615937 डब्ल्यू अब जेसी—773812 एच)	01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

बालाजी के	(14620474 डब्ल्यू अब जेसी—773456 एन)	01 फरवरी 2017
-----------	--------------------------------------	---------------

नायब सूबेदार स्पोर्टस्टाफ के रैंक में

सुबाश चन्द्र	(14616664 एल अब जेसी—773743 एक्स)	02 जनवरी 2017 / 01 जनवरी 2017
अचाता कुमार	(14617460 एल अब जेसी—772877 के)	01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

वेसिलक्ष्मणा राव	(14620453 ए अब जेसी—773792 ए)	01 फरवरी 2017
विजय कुमार	(14620468 एच अब जेसी—773794 एल)	01 फरवरी 2017
बिरेंदर	(14620829 डब्ल्यू अब जेसी—773799 के)	01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

परवीन सिंह	(14632696 एक्स अब जेसी—773842 ए)	01 फरवरी 2017
------------	----------------------------------	---------------

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

तालेका पंडीत किसान	(14635232 एल अब जेसी—773889 एल)	01 फरवरी 2017
अजित कुमार यादव	(14627108 पी अब जेसी—773888 एच)	01 फरवरी 2017
ईगवाले राजेन्द्र	(14635206 के अब जेसी—773887 ए)	04 फरवरी 2017 / 01 फरवरी 2017
विजय कुमार	(14633710 एल अब जेसी—773869 एक्स)	01 फरवरी 2017
प्रमोद कुमार	(14629455 एम अब जेसी—773895 वाई)	03 फरवरी 2017 / 21 जनवरी 2017
रघुवेन्द्र सिंह	(14633970 डब्ल्यू अब जेसी—773904 पी)	01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक इलैक्ट के रैंक में

देवराजा	(14633663 वाई अब जेसी—773853 एम)	01 फरवरी 2017
मनोज कुमार शर्मा	(14638468 एल अब जेसी—773858 एल)	01 फरवरी 2017
अनिमेश बेरा	(14646097 एच अब जेसी—773848 एफ)	01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक अप्टो के रैंक में

टी बिनु कुमार	(14637868 एल अब जेसी—773844 एल)	01 फरवरी 2017
एम कृष्णन	(14636808 के अब जेसी—773801 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक ए व्हीकल के रैंक में

नागा राजा पापाबाथीनि	(14640361 पी अब जेसी—773891 एच)	01 फरवरी 2017 / 07 जनवरी 2017
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में

रमेश चन्द्र जेना	(14625604 एक्स अब जेसी—773830 एल)	01 फरवरी 2017
------------------	-----------------------------------	---------------

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार क्लर्क एस डी के रैंक में

एम डी रफिक आलम	(14634033 एल अब जेसी—773827 एल)	01 फरवरी 2017
----------------	---------------------------------	---------------

श्रीरामुलु वविलिपल्ली	(14633949 एन अब जेसी—773826 एच)	01 फरवरी 2017
एस सरवानन	(14633947 एच अब जेसी—773825 ए)	01 फरवरी 2017
सुरेश कुमार पी	(14633963 ए अब जेसी—773828 एन)	01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में

संदीप कुमार	(14637668 पी अब जेसी—773523 एन)	23 जनवरी 2017 / 01 नवम्बर 2016
मोहन भाउ साहेब शामराव	(14639371 एम अब जेसी—773838 एक्स)	01 फरवरी 2017
प्रकाश आर	(14640271 एन अब जेसी—773839 ए)	01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक इलैक्ट के रैंक में

राम नारायण तिवारी	(14630430 एम अब जेसी—773849 के)	01 फरवरी 2017
पवन कुमार	(14641930 के अब जेसी—773859 एन)	01 फरवरी 2017

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

प्रसन्ता गोस्वामी	(14635188 एम अब जेसी—773886 एक्स)	01 फरवरी 2017
पंचा राम	(14626495 एच अब जेसी—773892 एल)	01 फरवरी 2017 / 07 जनवरी 2017
आकिलेश कुमार	(14633564 डब्ल्यू अब जेसी—773870 एम)	01 फरवरी 2017
बी नवीन कुमार रेड्डी	(14633726 डब्ल्यू अब जेसी—773871 पी)	01 फरवरी 2017
पलवे गोरकशनाथ कबीर	(14634833 के अब जेसी—773881 वाई)	01 फरवरी 2017
रवीन्द्र कुमार	(14634963 एम अब जेसी—773883 के)	01 फरवरी 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

ग्यानंदर सिंह	(14635079 ए अब जेसी—773189 एक्स)	01 अगस्त 2016 / 02 जुलाई 2016
---------------	----------------------------------	-------------------------------

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक इलैक्ट के रैंक में

शरद कुमार शुक्ला	(14634501 ए अब जेसी—773854 पी)	01 फरवरी 2017
------------------	--------------------------------	---------------

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

परमार परपोतम भाई	(14633175 डब्ल्यू अब जेसी—774166 एच)	01 अप्रैल 2017
शंकर लाल	(14633137 ए अब जेसी—774164 एक्स)	01 अप्रैल 2017
निजार मुहम्मद ए	(14633292 एफ अब जेसी—774170 एल)	01 अप्रैल 2017
जसवंत राय	(14633196 एम अब जेसी—774179 ए)	01 अप्रैल 2017
दिनेश कुमार	(14633362 पी अब जेसी—774184 एल)	01 अप्रैल 2017
दया राम	(14633258 एफ अब जेसी—774183 एच)	01 अप्रैल 2017

नरेन्द्र कुमार	(14633119 एक्स अब जेसी—774172 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
हनुमान सहाय सैनी	(14633128 वाई अब जेसी—774180 पी)	01 अप्रैल 2017
सुरिंदर कुमार	(14633183 पी अब जेसी—774168 एन)	01 अप्रैल 2017
उपेन्द्र कुमार खंडा	(14633352 एल अब जेसी—774181 एक्स)	01 अप्रैल 2017
दलजीत सिंह	(14633185 ए अब जेसी—774175 के)	01 अप्रैल 2017
संदीप सिंह दडवाल	(14633195 के अब जेसी—774171 एन)	01 अप्रैल 2017
प्रजापती विनोद कुमार	(14633173 एल अब जेसी—774165 ए)	01 अप्रैल 2017
राकेश सिंह	(14617669 डब्ल्यू अब जेसी—774159 एम)	01 अप्रैल 2017
हीरा सिंह	(14617813 ए अब जेसी—774161 के)	01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में

पवन कुमार	(14657669 वाई अब जेसी—774040 एच)	01 अप्रैल 2017
धिरेन्द्र कुमार	(14657715 एच अब जेसी—774188 एफ)	01 अप्रैल 2017
प्रनव शंकर	(14658108 डब्ल्यू अब जेसी—774049 एक्स)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक अप्टो के रैंक में

नबा कुमार पाल	(14660600 ए अब जेसी—774053 ए)	01 अप्रैल 2017
प्रकाश चन्द्र सेठी	(14660642 एम अब जेसी—774057 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
रजनीश कुमार	(14659910 वाई अब जेसी—774050 एम)	01 अप्रैल 2017
अमरेन्द्र तराई	(14660611 एम अब जेसी—774055 एल)	01 अप्रैल 2017
राकेश कुमार चतुर्वेदी	(14660680 एच अब जेसी—774058 वाई)	03 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017
अशोक कुमार प्रधान	(14660609 पी अब जेसी—774054 एच)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में

एस मुरुगईया	(14636951 डब्ल्यू अब जेसी—773987 एल)	11 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
संजय कुमार	(14638694 एच अब जेसी—774064 एम)	01 अप्रैल 2017
राकेश कुमार गोस्वामी	(14639338 पी अब जेसी—774066 एक्स)	01 अप्रैल 2017
बबलु कुमार शर्मा	(14639358 एच अब जेसी—774067 ए)	01 अप्रैल 2017
कदम राजेन्द्र जगन्नाथ	(14639382 वाई अब जेसी—774069 एल)	01 अप्रैल 2017
पवार रमेश दादासाहेब	(14639383 एफ अब जेसी—774070 ए)	01 अप्रैल 2017
रवीन्द्र सिंह	(14625548 के अब जेसी—774075 वाई)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

पार्थ नारायन चक्रवर्ती	(14633760 डब्ल्यू अब जेसी—774078 एम)	01 अप्रैल 2017
इमरत सिंह	(14634093 ए अब जेसी—774079 पी)	01 अप्रैल 2017

तरुन हलदर	(14634098 वाई अब जेसी—774080 के)	01 अप्रैल 2017
अमरेन्द्र कुमार	(14634126 ए अब जेसी—774081 एम)	01 अप्रैल 2017
एहीलन आर	(14634366 एक्स अब जेसी—774086 एल)	01 अप्रैल 2017
रोबर्ट साम वी आर	(14634363 के अब जेसी—774087 एन)	01 अप्रैल 2017
एस अलगर सामी	(14634422 एल अब जेसी—774090 एन)	01 अप्रैल 2017
ए रोबर्ट केनडी	(14634442 वाई अब जेसी—774092 वाई)	01 अप्रैल 2017
नायब सूबेदार एम टेक इलैक्ट के रैंक में		
धरमवीर सिंह	(14645845 वाई अब जेसी—774093 एफ)	01 अप्रैल 2017
विवेक कुमार	(14638195 एन अब जेसी—774094 के)	01 अप्रैल 2017
विक्रम सिंह	(14641902 एक्स अब जेसी—774095 एम)	01 अप्रैल 2017
मुकेश कुमार	(14657376 एन अब जेसी—774098 ए)	01 अप्रैल 2017
देव कुमार सिंह	(14660888 एल अब जेसी—774099 एच)	01 अप्रैल 2017
जहांगीर मंडल	(14661236 वाई अब जेसी—774100 एम)	01 अप्रैल 2017
जगरोसन	(14649347 के अब जेसी—774101 पी)	01 अप्रैल 2017
हरे राम पाठक	(14637332 पी अब जेसी—774102 एक्स)	01 अप्रैल 2017
एस जितेन्द्र सिंह के सिंह	(14637023 एम अब जेसी—774003 पी)	17 मार्च 2017 / 04 फरवरी 2017
धर्मेन्द्र कुमार	(14633108 एल अब जेसी—774104 एच)	01 अप्रैल 2017
अमित कुमार	(14655902 एच अब जेसी—774106 एन)	01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

पंकज कुमार	(14636035 पी अब जेसी—774013 वाई)	31 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
एस बालसुब्रमनियन	(14629841 वाई अब जेसी—774116 एक्स)	01 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
बाल गोविन्द	(14636787 वाई अब जेसी—774024 एल)	20 मार्च 2017 / 01 मार्च 2017
ए चन्द्र मौलि	(14636679 पी अब जेसी—774026 डब्ल्यू)	01 मार्च 2017
शिवानंद अप्पर	(14637045 एल अब जेसी—774119 एल)	01 अप्रैल 2017
परशुराम मिश्रा	(14637206 एच अब जेसी—774121 एच)	01 अप्रैल 2017
हरि हर हातुई	(14697247 एम अब जेसी—774122 एल)	01 अप्रैल 2017
परमर जसवंत सिंह	(14637316 एक्स अब जेसी—774123 एन)	01 अप्रैल 2017
श्याम सुन्दर राव ए	(14637421 एन अब जेसी—774124 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
दीपक कुमार पाटक	(14634225 एच अब जेसी—773906 के)	20 मार्च 2017 / 01 फरवरी 2017
राठोड दिलीप असरुबा	(14630842 एन अब जेसी—773897 के)	04 फरवरी 2017 / 21 जनवरी 2017
नागेश्वरा राव ए	(14637425 के अब जेसी—774125 वाई)	01 अप्रैल 2017
राकेश कुमार	(14631009 के अब जेसी—774117 ए)	01 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
सजल कुमार दत्ता	(14622048 के अब जेसी—773350 एफ)	01 सितम्बर 2016

	नायब सूबेदार एम टेक रडार के रैंक में	
पंकज रमेशचंद शर्मा	(14654022 ए अब जेसी—773921 पी)	17 मार्च 2017 / 04 फरवरी 2017
अलोक गिरी	(14657673 एफ अब जेसी—773925 एल)	10 मार्च 2017 / 04 फरवरी 2017
संग्राम कुमार समल	(14647834 एल अब जेसी—774193 एम)	01 अप्रैल 2017
टी जगदीश्वरा रेड्डी	(14647139 डब्ल्यू अब जेसी—774190 वाई)	01 अप्रैल 2017
सुबाष सिंह शेखावत	(14647493 डब्ल्यू अब जेसी—774192 के)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक रडार के रैंक में

रविन्दर सिंह	(14630362 के अब जेसी—774103 ए)	01 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
भुपेन्द्र सिंह घौनि	(14643322 एफ अब जेसी—774105 एल)	01 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
बबलू	(14644633 एफ अब जेसी—774107 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक अष्टो के रैंक में

मनीष कुमार	(14655597 एफ अब जेसी—774044 वाई)	01 अप्रैल 2017
राकेश कुमार सिंह	(14659998 एन अब जेसी—774051 पी)	01 अप्रैल 2017
पर्वत कुमार दास	(14660597 एल अब जेसी—774052 एक्स)	01 अप्रैल 2017
रविंदर सिंह भगेल	(14658219 एन अब जेसी—774060 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
आशिष आर	(14656329 के अब जेसी—774046 के)	03 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में

दीपक साईकिया	(14637990 एफ अब जेसी—774063 के)	01 अप्रैल 2017
--------------	---------------------------------	----------------

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

रनबीर कुमार	(14635438 एच अब जेसी—774194 पी)	01 अप्रैल 2017
बलेन्द्रा सिंह	(14634310 एल अब जेसी—774083 एक्स)	01 अप्रैल 2017
राजासेखर टी	(14634410 डब्ल्यू अब जेसी—774089 वाई)	01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

किरदात नितिन सदाशिव	(14617839 पी अब जेसी—774160 एफ)	01 अप्रैल 2017
नारायण सिंह	(14633241 एन अब जेसी—774169 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
अरविन्द सिंह	(14633180 एफ अब जेसी—774167 एल)	01 अप्रैल 2017
अमर जीत सिंह	(14633234 एक्स अब जेसी—774174 एफ)	01 अप्रैल 2017
रविंदर सिंह	(14633181 के अब जेसी—774177 पी)	01 अप्रैल 2017
राजीव कुमार	(14633688 एल अब जेसी—774163 पी)	04 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017
बलवन्त सिंह	(14633186 एच अब जेसी—774178 एक्स)	01 अप्रैल 2017
सतीश कुमार	(14633205 एच अब जेसी—774173 वाई)	01 अप्रैल 2017
चौहान मनूभाई भिकाभाई	(14633171 ए अब जेसी—774176 एम)	01 अप्रैल 2017
अंजनी कुमार सुमन	(14633307 वाई अब जेसी—774182 ए)	03 अप्रैल 2017 / 01 अप्रैल 2017

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार क्लर्क एस डी के रैंक में

मोहन लाल सैनी	(14634154 एम अब जेसी—773947 के)	01 मार्च 2017
किशोर कुमार मिश्रा	(14635655 वाई अब जेसी—774147 एक्स)	01 अप्रैल 2017
शिव बहादुर यादव	(14635552 ए अब जेसी—774143 एफ)	01 अप्रैल 2017
अनील कुमार यादव	(14635550 पी अब जेसी—774144 के)	01 अप्रैल 2017
कनाडे एकनाद छगन	(14635203 डब्ल्यू अब जेसी—774137 एन)	01 अप्रैल 2017
बिसे बबन बानु दास	(14635205 एफ अब जेसी—774139 वाई)	01 अप्रैल 2017
उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	(14635549 ए अब जेसी—774141 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
विश्वनाथ एम बी	(14635636 एन अब जेसी—774146 पी)	01 अप्रैल 2017
जितेन्द्र कुमार	(14634195 डब्ल्यू अब जेसी—774135 एच)	01 अप्रैल 2017
रामअप्पा एन सी	(14635631 पी अब जेसी—774142 वाई)	01 अप्रैल 2017
संदीप कुमार रावत	(14634155 पी अब जेसी—774038 एल)	01 अप्रैल 2017
जगन्नाथ सिंह	(14634156 ए अब जेसी—774132 पी)	01 अप्रैल 2017
सुनिल कुमार	(14634178 डब्ल्यू अब जेसी—774136 एल)	01 अप्रैल 2017
कोल्हे राधेश्याम दशरथ	(14635204 डब्ल्यू अब जेसी—774138 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
मुकेश कुमार पाल	(14635212 एक्स अब जेसी—774134 ए)	01 अप्रैल 2017
ए एडवर्ड रमेश	(14634243 एल अब जेसी—774134 ए)	01 अप्रैल 2017
शशि भूषण वर्मा	(14635660 के अब जेसी—774148 ए)	01 अप्रैल 2017
श्रीधर के पूजारी	(14635634 एच अब जेसी—774145 एम)	01 अप्रैल 2017
प्रेहलाद दास	(14635729 एच अब जेसी—774150 एक्स)	01 अप्रैल 2017
कुम्भार रमेश बापुसो	(14652436 एन अब जेसी—774151 ए)	01 अप्रैल 2017
अजीत कुमार कनाथिया	(14634185 एम अब जेसी—774131 एम)	01 अप्रैल 2017

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

नायब सूबेदार एम टेक नेटवर्क के रैंक में

वरुण कुमार	(14640479 डब्ल्यू अब जेसी—774043 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017 / 04 फरवरी 2017
शैलेश कुमार सिंह	(14657670 एन अब जेसी—774041 एल)	01 अप्रैल 2017
चन्द्र शेखर पाठक	(14657684 एन अब जेसी—774042 एन)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक अप्टो के रैंक में

शेक महबूब शरीफ	(14655877 पी अब जेसी—774045 एफ)	01 अप्रैल 2017
के कार्तिक	(14656365 पी अब जेसी—774047 एम)	01 अप्रैल 2017
गोलक प्रसाद दास	(14660618 डब्ल्यू अब जेसी—774056 एन)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक गण के रैंक में

एंटोनि दोलबान एस	(14636953 एफ अब जेसी-774061 वाई)	01 अप्रैल 2017
शिशिर कुमार मान्ना	(14636960 एक्स अब जेसी-774062 एफ)	01 अप्रैल 2017
राम कुमार	(14640450 एन अब जेसी-774072 एल)	01 अप्रैल 2017
रमेश एस	(14621541 एच अब जेसी-774074 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
राजेन्द्र पान्डा	(14639878 एन अब जेसी-774071 एच)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक एस ए के रैंक में

बिनु चाको	(14647059 वाई अब जेसी-774037 एच)	20 मार्च 2017 / 15 मार्च 2017
दामे अशोक प्रभाकर	(14647134 एक्स अब जेसी-774076 एफ)	01 अप्रैल 2017
सी रगुनाथ	(14647856 के अब जेसी-774186 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017

नायब सूबेदार एम टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

एम जहन ब्राईट	(14634377 के अब जेसी-774088 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
सतीश कुमार एम	(14634425 वाई अब जेसी-774091 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2017
एस पथीबन	(14623469 डब्ल्यू अब जेसी-766373 ए)	03 जनवरी 2014 / 1 सितम्बर 2011
सहनसार पाल यादव	(14627342 एल अब जेसी-766523 एल)	03 जनवरी 2014 / 01 सितम्बर 2011
एस बी भवर सिंह	(14617635 एच अब जेसी-766370 एम)	25 जनवरी 2014 / 01 सितम्बर 2011

नायब सूबेदार एम टेक इलैक्ट के रैंक में

महंदि हासान खॉन	(14655707 एल अब जेसी-774096 पी)	01 अप्रैल 2017
-----------------	---------------------------------	----------------

नायब सूबेदार एम टेक रडार के रैंक में

भेदोडकर प्रवीन सुधाकर	(14647246 एक्स अब जेसी-774191 एफ)	01 अप्रैल 2017
-----------------------	-----------------------------------	----------------

नायब सूबेदार एम टेक ए व्हीकल के रैंक में

मटु राम सैनी	(14640114 एफ अब जेसी-774118 एच)	03 अप्रैल 2017 / 11 मार्च 2017
--------------	---------------------------------	--------------------------------

नायब सूबेदार एम टेक बी व्हीकल के रैंक में

गन्दलाल सिंह	(14637155 ए अब जेसी-774120 ए)	01 अप्रैल 2017
--------------	-------------------------------	----------------

* पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है ।

अनुराग शर्मा
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th September 2017

ARMY BRANCH

No. 178, dated 6th July 2017—The President is pleased to make the following promotions:-

CORPS ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERING

To be Nb Sub SKT

Balveer Singh	(14616610K now JC-773943N)	01 Mar 2017
Bideshi Kumar Behera	(14616426Y now JC-773942L)	01 Mar 2017
Jagmohan	(14616393Y now JC-773941H)	01 Mar 2017
Sankar Sahoo	(14616765Y now JC-773945Y)	01 Mar 2017
Kuldip Kumar	(14616688P now JC-773944W)	01 Mar 2017
Jitender Singh	(14617405P now JC-774032K)	01 Mar 2017
Dina Nath Singh	(14616902M now JC-774031F)	01 Mar 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTec B Veh

Nagabhairu Rajesh Babu	(14632992H now JC-773760X)	03 Mar 2017/10 Dec 2016
Pramod Kumar	(14635833W now JC-773953X)	01 Mar 2017
K Sampathu	(14635899M now JC-773954A)	01 Mar 2017
Anil Kumar	(14635810P now JC-773951M)	01 Mar 2017
Ram Gopal Sain	(14636763P now JC-774021X)	01 Mar 2017
Shri Prakash Singh	(14636643W now JC-774022A)	01 Mar 2017
Dhanish IV	(14636500W now JC-774015K)	01 Mar 2017
Mohite Krishna Shripati	(14635210M now JC-773949P)	01 Mar 2017
Bharat Kumar	(14635787M now JC-773960N)	01 Mar 2017
Amiya Khuntia	(14635717N now JC-773958W)	01 Mar 2017
Prem Singh	(14635794H now JC-774017P)	01 Mar 2017
Aditya Kumar Sharma	(14635816W now JC-773952P)	01 Mar 2017
Mohit Kumar	(14636359A now JC-773955H)	01 Mar 2017
Pabitra Sarkar	(14629175Y now JC-773635N)	20 Feb 2017/01 Dec 2016
Arun Kumar Patel	(14636510A now JC-774016M)	01 Mar 2017
Sivlingam S	(14635563M now JC-773956L)	01 Mar 2017
Sudheesh Kumar C	(14636072H now JC-774014F)	01 Mar 2017

To be Nb Sub MTec OE

Sampatirao Shanmukharao	(14654689F now JC-773979M)	01 Mar 2017
Subhas Chandra Saha	(14643353F now JC-773968A)	01 Mar 2017
Shahul Hameed I	(14645303P now JC-773969H)	01 Mar 2017
Imran Khan	(14654153L now JC-773973L)	01 Mar 2017
Devi Dayal	(14653866K now JC-773970X)	01 Mar 2017

Devender Kumar	(14653306X now JC-773971A)	01 Mar 2017
Vinesh	(14654721L now JC-773980F)	01 Mar 2017
To be Nb Sub MTec Comn		
Bijay Kumar Anchal	(14632791K now JC-773989W)	01 Mar 2017
Uma Shankar Sahu	(14633526A now JC-774000F)	01 Mar 2017
Kavali Appala Raju	(14633015W now JC-773994F)	01 Mar 2017
Khairnar Gorakh Bhivasan	(14632894H now JC-773991N)	01 Mar 2017
Rajesh CP	(14618281X now JC-773990L)	01 Mar 2017
To be Nb Sub MTec RDR		
Asis Kumar Padhi	(14658699H now JC-774028F)	01 Mar 2017
Pandey Shailesh KK	(14658645F now JC-774027Y)	01 Mar 2017
Delanoy Pascal	(14652294F now JC-773917M)	16 Feb 2017/04 Feb 2017
To be Nb Sub MTec Gun		
Vijay Kumar Badgular	(14630004Y now JC-773983P)	01 Mar 2017
To be Nb Sub MTec SA		
Shaiju S	(14647058W now JC-773988N)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub SKT		
Ramash Ray Yadav	(14616322X now JC-773940A)	01 Mar 2017
Arun Kumar	(14616321P now JC-773939L)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub Auto Tec BV		
Udaya Kanta Jha	(14620073F now JC-773788X)	01 Feb 2017
Sanjay Kumar Maurya	(14620408N now JC-773791X)	01 Feb 2017
Bipin Kumar	(14620546P now JC-773930W)	01 Mar 2017
Naresh Singh	(14620585N now JC-773931Y)	01 Mar 2017
Prambir Kr Bhattacharya	(14620563P now JC-773932F)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTec B Veh		
Ajay Kumar Patel	(14636292M now JC-773962Y)	01 Mar 2017
Jai Prakash Rai	(14635771F now JC-773959Y)	04 Mar 2017/01 Mar 2017
Thimmappa MN	(14635323P now JC-773957N)	01 Mar 2017
Ramasheesh Yadav	(14636733X now JC-774020P)	01 Mar 2017
Laldeem	(14636626W now JC-774034P)	09 Mar 2017/01 Jul 2016
Baba Rao	(14635551X now JC-773950K)	01 Mar 2017
To be Nb Sub MTec Gun		
Mukesh Kumar	(14630383A now JC-773982M)	01 Mar 2017
Rajni Kant	(14635875H now JC-773986H)	01 Mar 2017

Ramesh	(14634994M now JC-773984X)	01 Mar 2017
	To be Nb Sub MTec OE	
Pradeep Kumar PS	(14654400N now JC-773974N)	01 Mar 2017
Krishna Kumar Pandey	(14654651X now JC-773976Y)	01 Mar 2017
	To be Nb Sub MTec Ele	
Satbendra Kumar Yadav	(14642099W now JC-774004X)	01 Mar 2017/04 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec Comm	
Manoranjan Behera	(14633606X now JC-773998X)	01 Mar 2017
Rabi Kumar Padhi	(14633520Y now JC-773997P)	01 Mar 2017
	To be Nb Sub MTec RDR	
Bal Mukund Singh	(14657975N now JC-773915Y)	13 Feb 2017/04 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Clk SD	
Ashok Kumar	(14634063H now JC-773946F)	01 Mar 2017
Ashok Kumar Dogra	(14617825P now JC-774035X)	02 Mar 2017/01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub MTec B Veh	
Matbar Singh	(14634048N now JC-773657M)	03 Mar 2017/26 Nov 2016
Haridas Sinha	(14630147Y now JC-773644P)	09 Jan 2017/01 Dec 2016
Gajraj Singh Verma	(14634606K now JC-773879F)	01 Feb 2017
Lal Babu Prasad	(14636563Y now JC-774018X)	01 Mar 2017
Govind Raj R	(14636648P now JC-774023H)	03 Mar 2017/01 Mar 2017
Neelam Kumar	(14636811K now JC-774036A)	11 Mar 2017/02 Mar 2017
C Anbarasu	(14628994W now JC-773894W)	01 Feb 2017/07 Jan 2017
	To be Nb Sub MTec OE	
Kailash Chandra	(14654644F now JC-773975W)	01 Mar 2017
Tej Pratap Singh	(14654658F now JC-773977F)	01 Mar 2017
Ratheesh R	(14654827X now JC-773981K)	01 Mar 2017
	To be Nb Sub MTec Comm	
Sudhir G	(14632984K now JC-773992W)	01 Mar 2017
Pucha Ramesh	(14633026H now JC-773996M)	01 Mar 2017
Siba Sankar Sahu	(14633524P now JC-773999A)	01 Mar 2017
Sandeep Pathania	(14633427X now JC-773995K)	01 Mar 2017
	To be Nb Sub MTec Elect	
Shamsudeen T	(14643974A now JC-774001K)	01 Mar 2017
	To be Nb Sub MTec Gun	
Subrat Kumar Sahoo	(14635021H now JC-773985A)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Wldr

Ravi Chauhan	(14620435X now JC-773934M)	01 Feb 2017/10 Dec 2016
Labh Singh	(14620450M now JC-773935P)	01 Mar 2017/10 Jan 2017
Binod Kumar Pandey	(14617401Y now JC-773937A)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Tech Comn

Munna Prasad Singh	(14623720F now JC-773928Y)	01 Mar 2017
--------------------	----------------------------	-------------

To be Nb Sub Tech Cmptr

Boominathan M	(14639311X now JC-773929F)	01 Mar 2017
---------------	----------------------------	-------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub SKT

Sarvesh Kumar	(14617501K now JC-774033M)	17 Mar 2017/01 Mar 2017
---------------	----------------------------	-------------------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub Dvr MT

Udaya Narayan	(14619371L now JC-773948M)	01 Mar 2017
---------------	----------------------------	-------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub Auto Ele Bv

Prempal Singh Teotia	(14618843K now JC-773963F)	03 Mar 2017/04 Feb 2017
----------------------	----------------------------	-------------------------

To be Nb Sub Tech Opele

Tirlok Chand	(14629896H now JC-773933K)	01 Mar 2017
--------------	----------------------------	-------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub Tech SA

Binesh Thakur	(14642637Y now JC-774008N)	01 Mar 2017
Birendra Singh	(14635302Y now JC-773967X)	01 Mar 2017/04 Feb 2017
Pawan Kumar Yadav	(14642643M now JC-774009W)	01 Mar 2017
G Mahesh Kumar	(14642604N now JC-774006H)	01 Mar 2017
Pawan Koushik	(14642147L now JC-774010L)	01 Mar 2017
Dharmender Kumar	(14642593M now JC-774012W)	01 Mar 2017
Kamlesh Khinchar	(14642441L now JC-774011N)	01 Mar 2017
Sreejesh M	(14642050A now JC-774005A)	01 Mar 2017
A Venkateshwarlu	(14641104K now JC-774111Y)	01 Apr 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub Auto Tec BV

Nagendra Choudhary	(14620804K now JC-773795N)	01 Feb 2017
Arun Kumar Rai	(14620565A now JC-774030Y)	18 Mar 2017/01 Mar 2017
Bipin Bihari Bharti	(14620845N now JC-774126F)	01 Apr 2017
Sanjeev Kumar C H	(14620859N now JC-774128M)	01 Apr 2017
Gunkara K	(14620620L now JC-774129P)	01 Apr 2017

Krishan Lal	(14620626M now JC-774130K)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub SKT	
Mukesh Kumar Singh	(14615934H now JC-774158K)	01 Apr 2017/11 Mar 2017
C Natarajan	(14614845X now JC-768096Y)	01 Mar 2013
Shiv Mohan Singh	(14614841F now JC-772033N)	08 Oct 2015/01 Oct 2015
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Tech Comm	
Digamber Singh	(14624959W now JC-774154N)	01 Apr 2017
	To be Nb Sub Armtfd	
Pusa Ram	(14640070P now JC-773738M)	01 Jan 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Welder	
Shik Mastanvali	(14620512F now JC-773936X)	31 Mar 2017/01 Mar 2017
	To be Nb Sub Machinist	
Bhubaneswar Mohanta	(14619683F now JC-774185N)	01 Apr 2017
Mallik Kutabuddin	(14619685M now JC-774195X)	01 Apr 2017
	To be Nb Sub Dtmn Tech	
G Kotteswaran	(14634015H now JC-774189K)	01 Apr 2017/11 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Tech SA	
Santosh Kumar S	(14641976M now JC-774108Y)	01 Apr 2017
Kailash Mahto	(14642656K now JC-774114M)	01 Apr 2017
Sumanta Sikdar	(14642667W now JC-774112F)	01 Apr 2017
Anup Singh Suner	(14641977P now JC-774109F)	01 Apr 2017
Keti Nityananda Rao	(14642004N now JC-773938H)	01 Mar 2017
Dharm Pal	(14642591F now JC-774110W)	01 Apr 2017
Sandeep Kumar Adalak	(14639763A now JC-774113K)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub M Tech AVN (AF)	
Dinmani Pandey	(14644762F now JC-774153N)	01 Apr 2017
Rajit Kumar Das	(14647787Y now JC-774156Y)	01 Apr 2017
	To be Nb Sub M Tech AVN (CS)	
Shaikh Minahaj Shahajahan	(14661303Y now JC-773965M)	01 Mar 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub MTec BV	
Anit Kumar Singh	(14631612M now JC-773898M)	22 Apr 2017/21 Jan 2017
	To be Nb Sub MTec NW	
Rishi Kesh Yadav	(14652329M now JC-774187Y)	17 Apr 2017/01 Jul 2016

To be Nb Sub MTec OE

Diwakar Mani Tripathi	(14655592H now JC-774059F)	01 Apr 2017
Ramesh Siripuram	(14654679X now JC-773978K)	21 Apr 2017/ 01 Mar 2017
E Lokanadham	(14657251W now JC-774048P)	01 Apr 2017
PB Bala Murugan	(14653346Y now JC-773972H)	13 Apr 2017/ 01 Mar 2017

To be Nb Sub MTec Gun

Kasireddi Apparao	(14639001M now JC-774065P)	01 Apr 2017
Shinde Indrabhan Dattatrya	(14639373X now JC-774068H)	01 Apr 2017
Jai Kishore Pandey	(14622369Y now JC-774073N)	20 Apr 2017/ 01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec Comm

K Natarajan	(14634359F now JC-774084A)	01 Apr 2017
Mari Krishnan A	(14634362F now JC-774085H)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec Ele

Jitendra Kumar Singh	(14656090M now JC-774097X)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		

To Be Nb Sub Auto Tec BV

Kishore Kumar	(14620603L now JC-774127K)	01 Apr 2017
Chidanand Patil	(14620636W now JC-774196A)	21 Apr 2017/13 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Tech Opele

Amar Sewa	(14630423W now JC-774157F)	04 Apr 2017/01 Apr 2017
-----------	----------------------------	-------------------------

To be Nb Sub Auto Ele BV

Prafulla Kumar Rana	(14619372N now JC-774039N)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Tech Comm

Jamag Govind Ramrao	(14625066P now JC-774155W)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub SKT

K Narayanan	(13759880L now JC-774162M)	01 Apr 2017
Multan Singh	(14633689N now JC-774197M)	13 Apr 2017/ 08 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Clk (SD)

Duryodhan Padhiary	(14635722Y now JC-774149H)	01 Apr 2017
Pawan Kumar	(14664292H now JC-774152H)	01 Apr 2017
Arun Kumar Yadav	(14633089L now JC-774287K)	01 May 2017
Rajendra Singh	(14633366L now JC-774288M)	01 May 2017
A Muthu Pandian	(14626499Y now JC-774289P)	01 May 2017
Maruthi Mashnu	(14635633A now JC-774284W)	01 May 2017

Aji Kumar M	(14635701H now JC-774285Y)	01 May 2017
Radhe Sham	(14634157A now JC-774133X)	01 May 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub Auto Ele BV	
Teegala Manmadha Rao	(14619363M now JC-773908L)	11 Feb 2017/01 Feb 2017
	To be Nb Sub Tech Opele	
Srinivasa SR	(14629947L now JC-773800N)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To Be Nb Sub Clk SD	
Sabu S	(14634037F now JC-773829W)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub SKT	
Jagadale Atulnarayan	(14616237P now JC-773818K)	01 Feb 2017
Vinod Kumar	(14616315F now JC-773821K)	10 Feb 2017/01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub MTec B Veh	
Paras Ram	(14631970X now JC-773693X)	18 Jan 2017/01 Dec 2016
Siva Kumar J	(14630616W now JC-773896F)	02 Feb 2017/07 Jan 2017
Mahesh Prasad Soni	(14634272A now JC-773876N)	01 Feb 2017
Surender	(14633544H now JC-773872X)	01 Feb 2017
Bipin Bihari Mishra	(14632059F now JC-773903M)	12 Feb 2017/21 Jan 2017
Sanjay Kumar Das	(14634082N now JC-773905X)	16 Feb 2017/01 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec Elect	
Dinesh Kumar Shreepal	(14637257W now JC-773856A)	07 Feb 2017/01 Feb 2017
Ravi Singh	(14631663A now JC-773850Y)	01 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec OE	
Sukanta Mandal	(14642918P now JC-773846W)	13 Feb 2017/01 Feb 2017
	To be Nb Sub MTec A Veh	
Patil Anil Kashinath	(14632918F now JC-773901F)	01 Feb 2017/21 Jan 2017
Manaranjan Sahu	(14634723P now JC-773890A)	01 Feb 2017/07 Jan 2017
	To be Nb Sub MTec NW	
Sanjeev Kumar	(14656147W now JC-773913W)	01 Feb 2017/24 Dec 2016
	To be Nb Sub MTec RDR	
Manikandan S	(14652589X now JC-773918P)	13 Feb 2017/04 Feb 2107
Suman Debnath	(14653782W now JC-773919X)	13 Feb 2017/04 Feb 2017
B Suraj	(14655814M now JC-773923A)	13 Feb 2017/04 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
	To be Nb Sub SKT	
Sam Shaji	(14616339L now JC-773819H)	01 Feb 2017
Chitranjan Ray	(14615937W now JC-773812H)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub Wldr		
Balaji K	(14620474W now JC-773456N)	01 Feb 2017
To be Nb Sub SPS Tfer		
Subash Chandra	(14616664L now JC-773743X)	02 Jan 2017/01 Jan 2017
Achata Kumar	(14617460L now JC-772877K)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub Auto Tec BV		
Vesilakshmana Rao	(14620453A now JC-773792A)	01 Feb 2017
Vijay Kumar	(14620468H now JC-773794L)	01 Feb 2017
Birender	(14620829W now JC-773799K)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTec Comn		
Parveen Singh	(14632696X now JC-773842A)	01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec B Veh		
Taleka Pandit Kisan	(14635232L now JC-773889L)	01 Feb 2017
Ajit Kumar Yadav	(14627108P now JC-773888H)	01 Feb 2017
Ingawale Rajendra	(14635206K now JC-773887A)	04 Feb 2017/01 Feb 2017
Vijay Kumar	(14633710L now JC-773869X)	01 Feb 2017
Pramod Kumar	(14629455M now JC-773895Y)	03 Feb 2017/21 Jan 2017
Raghuvendra Singh	(14633970W now JC-773904P)	01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec Ele		
Devaraja	(14633663Y now JC-773853M)	01 Feb 2017
Manoj Kumar Sharma	(14638468L now JC-773858L)	01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec SA		
Animesh Bera	(14646097H now JC-773848F)	01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec OE		
T Binu Kumar	(14637868L now JC-773844L)	01 Feb 2017
M Krishnan	(14636808K now JC-773801W)	01 Feb 2017
To be Nb Sub MTec A Veh		
Naga Raju Papabathini	(14640361P now JC-773891H)	01 Feb 2017/07 Jan 2017
To be Nb Sub MTec Gun		
Romesh Chandra Jena	(14625604X now JC-773830L)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub Clk SD		
MD Rafik Alam	(14634033L now JC-773827L)	01 Feb 2017
Sreepamulu Vavilipalli	(14633949N now JC-773826H)	01 Feb 2017
S Saravanan	(14633947H now JC-773825A)	01 Feb 2017
Suresh Kumar P	(14633963A now JC-773828N)	01 Feb 2017
* Gtd ante date seniority		

To be Nb Sub MTec Gun

Sandeep Kumar	(14637668P now JC-773523N)	23 Jan 2017/01 Nov 2016
Mohan Bhau Saheb Shamrao	(14639371M now JC-773838X)	01 Feb 2017
Prakash R	(14640271N now JC-773839A)	01 Feb 2017

To be Nb Sub MTec Ele

Ram Narain Tiwari	(14630430M now JC-773849K)	01 Feb 2017
Pawan Kumar	(14641930K now JC-773859N)	01 Feb 2017

To be Nb Sub MTec B Veh

Prasanta Goswami	(14635188M now JC-773886X)	01 Feb 2017
Pancha Ram	(14626495H now JC-773892L)	01 Feb 2017/07 Jan 2017
Akilesh Kumar	(14633564W now JC-773870M)	01 Feb 2017
B Naveen Kumar Reddy	(14633726W now JC-773871P)	01 Feb 2017
Palve Gorakshnath Kabir	(14634833K now JC-773881Y)	01 Feb 2017
Ravindra Kumar	(14634963M now JC-773883K)	01 Feb 2017
Gyanender Singh	(14635079A now JC-773189X)	01 Aug 2016/02 Jul 2016

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTec Ele

Sharad Kumar Shukla	(14634501A now JC-773954P)	01 Feb 2017
---------------------	----------------------------	-------------

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub SKT

Parmar Parshotam Bhai	(14633175W now JC-774166H)	01 Apr 2017
Shankar Lal	(14633137A now JC-774164X)	01 Apr 2017
Nizar Muhammad A	(14633292F now JC-774170L)	01 Apr 2017
Jaswant Rai	(14633196M now JC-774179A)	01 Apr 2017
Dinesh Kumar	(14633362P now JC-774184L)	01 Apr 2017
Daya Ram	(14633258F now JC-774183H)	01 Apr 2017
Narendra Kumar	(14633119X now JC-774172W)	01 Apr 2017
Hanuman Sahay Saini	(14633128Y now JC-774180P)	01 Apr 2017
Surinder Kumar	(14633183P now JC-774168N)	01 Apr 2017
Upendra Kumar Khanda	(14633352L now JC-774181X)	01 Apr 2017
Daljit Singh	(14633185A now JC-774175K)	01 Apr 2017
Sandip Singh Dadhwal	(14633195K now JC-774171N)	01 Apr 2017
Prajapati Vinod Kumar	(14633173L now JC-774165A)	01 Apr 2017
Rakesh Singh	(14617669W now JC-774159M)	01 Apr 2017
Hira Singh	(14617813A now JC-774161K)	01 Apr 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTec NW

Pawan Kumar	(14657669Y now JC-774040H)	01 Apr 2017
Dhirendra Kumar	(14657715H now JC-774188F)	01 Apr 2017
Pranav Shankar	(14658108W now JC-774049X)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec OE

Naba Kumar Pal	(14660600A now JC-774053A)	01 Apr 2017
Prakash Chandra Sethi	(14660642M now JC-774057W)	01 Apr 2017
Rajneesh Kumar	(14659910Y now JC-774050M)	01 Apr 2017
Amarendra Tarai	(14660611M now JC-774055L)	01 Apr 2017
Rakesh Kumar Chaturvedi	(14660680H now JC-774058Y)	03 Apr 2017/01 Apr 2017
Ashok Kumar Pradhan	(14660609P now JC-774054H)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec Gun

S Murugaiah	(14636951W now JC-773987L)	11 Mar 2017/01 Mar 2017
Sanjay Kumar	(14638694H now JC-774064M)	01 Apr 2017
Rakesh Kumar Goshwami	(14639338P now JC-774066X)	01 Apr 2017
Bablu Kumar Sharma	(14639358H now JC-774067A)	01 Apr 2017
Kadam Rajendra Jagannath	(14639382Y now JC-774069L)	01 Apr 2017
Pawar Ramesh Dadasaheb	(14639383F now JC-774070A)	01 Apr 2017
Ravindra Singh	(14625548K now JC-774075Y)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec Comm

Partha Narayan Chakraborty	(14633760W now JC-774078M)	01 Apr 2017
Imrat Singh	(14634093A now JC-774079P)	01 Apr 2017
Tarun Halder	(14634098Y now JC-774080K)	01 Apr 2017
Amarendra Kumar	(14634126A now JC-774081M)	01 Apr 2017
Ezhilan R	(14634366X now JC-774086L)	01 Apr 2017
Robert Sam VR	(14634363K now JC-774087N)	01 Apr 2017
S Alagar Samy	(14634422L now JC-774090N)	01 Apr 2017
A Robert Kennedy	(14634442Y now JC-774092Y)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec Elect

Dharamvir Singh	(14645845Y now JC-774093F)	01 Apr 2017
Vivek Kumar	(14638195N now JC-774094K)	01 Apr 2017
Vikram Singh	(14641902X now JC-774095M)	01 Apr 2017
Mukesh Kumar	(14657376N now JC-774098A)	01 Apr 2017
Dev Kumar Singh	(14660888L now JC-774099H)	01 Apr 2017
Jahangir Mondal	(14661236Y now JC-774100M)	01 Apr 2017
Jagrosan	(14649347K now JC-774101P)	01 Apr 2017
Hare Ram Pathak	(14637332P now JC-774102X)	01 Apr 2017
S Jitendra Singh K Singh	(14637023M now JC-774003P)	17 Mar 2017/04 Feb 2017
Dharmendra Kumar	(14633108L now JC-774104H)	01 Apr 2017/11 Mar 2017

Amit Kumar	(14655902H now JC-774106N)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub MTec BV		
Pankaj Kumar	(14636035P now JC-774013Y)	31 Mar 2017/01 Mar 2017
S Balasubramanian	(14629841Y now JC-774116X)	01 Apr 2017/11 Mar 2017
Bal Govind	(14636787Y now JC-774024L)	20 Mar 2017/01 Mar 2017
A Chandra Mauli	(14636679P now JC-774026W)	01 Mar 2017
Shivanand Uppar	(14637045L now JC-774119L)	01 Apr 2017
Parshuram Mishra	(14637206H now JC-774121H)	01 Apr 2017
Hari Har Hatui	(14637247M now JC-774122L)	01 Apr 2017
Parmar Jasvant Singh	(14637316X now JC-774123N)	01 Apr 2017
Syama Sundar Rao A	(14637421N now JC-774124W)	01 Apr 2017
Deep Kumar Pathak	(14634225H now JC-773906A)	20 Mar 2017/01 Feb 2017
Rathod Deelip Asruba	(14630842N now JC-773897K)	04 Feb 2017/21 Jan 2017
Nageswara Rao A	(14637425K now JC-774125Y)	01 Apr 2017
Rakesh Kumar	(14631009K now JC-774117A)	01 Apr 2017/11 Mar 2017
Sajal Kumar Dutta	(14622648K now JC-773350F)	01 Sep 2016
To be Nb Sub MTec RDR		
Pankaj Rameshchand Sharma	(14654022A now JC-773921P)	17 Mar 2017/04 Feb 2017
Alok Giri	(14657673F now JC-773925L)	10 Mar 2017/04 Feb 2017
Sangram Kumar Samal	(14647834L now JC-774193M)	01 Apr 2017
T Jagadhiswara Reddy	(14647139W now JC-774190Y)	01 Apr 2017
Subash Singh Shekhawat	(14647493L now JC-774192K)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec Ele		
Ravinder Singh	(14630362K now JC-774103A)	01 Apr 2017/11 Mar 2017
Bhupendra Singh Dhauni	(14643322F now JC-774105L)	01 Apr 2017/11 Mar 2017
Bablu	(14644633F now JC-774107W)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec OE		
Manish Kumar	(14655597F now JC-774044Y)	01 Apr 2017
Rakesh Kumar Singh	(14659998N now JC-774051P)	01 Apr 2017
Parvat Kumar Das	(14660597L now JC-774052X)	01 Apr 2017
Ravinder Singh Bhagel	(14658219N now JC-774060W)	01 Apr 2017
Ashish R	(14656329K now JC-774046K)	03 Apr 2017/01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec Gun		
Dipak Saikia	(14637990F now JC-774063K)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec Comm		
Ranbir Kumar	(14635438H now JC-774194P)	01 Apr 2017
Balendra Singh	(14634310L now JC-774083X)	01 Apr 2017
Rajasekhar T	(14634410W now JC-774089Y)	01 Apr 2017
* Gtd ante date seniority		
To be Nb Sub SKT		
Kirdat Nitin Sadashiv	(14617839P now JC-774160F)	01 Apr 2017
Narain Singh	(14633241N now JC-774169W)	01 Apr 2017

Arvind Singh	(14633180F now JC-774167L)	01 Apr 2017
Amar Jeet Singh	(14633234X now JC-774174F)	01 Apr 2017
Ravinder Singh	(14633181K now JC-774177P)	01 Apr 2017
Rajiv Kumar	(14633688L now JC-774163P)	04 Apr 2017/01 Apr 2017
Balwant Singh	(14633186H now JC-774178X)	01 Apr 2017
Satish Kumar	(14633205H now JC-774173Y)	01 Apr 2017
Chauhan Manubhai Bhikhabhai	(14633171A now JC-774176M)	01 Apr 2017
Anjani Kumar Suman	(14633307Y now JC-774182A)	03 Apr 2017/01 Apr 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub Clk

Mohan Lal Saini	(14634154M now JC-773947K)	01 Mar 2017
Kishor Kumar Mishra	(14635655Y now JC-774147X)	01 Apr 2017
Shiv Bahadur Yadav	(14635552A now JC-774143F)	01 Apr 2017
Anil Kumar Yadav	(14635550P now JC-774144K)	01 Apr 2017
Kanade Eknath Chhangan	(14635203W now JC-774137N)	01 Apr 2017
Bhise Baban Bhanu Das	(14635205F now JC-774139Y)	01 Apr 2017
Upendra Kumar Dwivedi	(14635549A now JC-774141W)	01 Apr 2017
Vishwanath MB	(14635636N now JC-774146P)	01 Apr 2017
Jitendra Kumar	(14634195W now JC-774135H)	01 Apr 2017
Ramappa NC	(14635631P now JC-774142Y)	01 Apr 2017
Sundeep Kumar Rawat	(14634155P now JC-774038L)	01 Apr 2017
Jagannath Singh	(14634156X now JC-774132P)	01 Apr 2017
Sunil Kumar	(14634178W now JC-774136L)	01 Apr 2017
Kolhe Radhesham Dashrath	(14635204Y now JC-774138W)	01 Apr 2017
Mukesh Kumar Pal	(14635212X now JC-774134A)	01 Apr 2017
A Edward Ramesh	(14634243L now JC-774134A)	01 Apr 2017
Sashi Bhushan Verma	(14635660K now JC-774148A)	01 Apr 2017
Shridhar K Poojari	(14635634H now JC-774145M)	01 Apr 2017
Prahallada Das	(14635729H now JC-774150X)	01 Apr 2017
Kumbhar Ramesh Bapuso	(14652436N now JC-774151A)	01 Apr 2017
Ajit Kumar Kanathiya	(14634185M now JC-774131M)	06 Apr 2017/01 Apr 2017

* Gtd ante date seniority

To be Nb Sub MTec NW

Barun Kumar	(14640479W now JC-774043W)	01 Apr 2017/04 Feb 2017
Shailesh Kumar Singh	(14657670N now JC-774041L)	01 Apr 2017
Chandra Shekhar Pathak	(14657684N now JC-774042N)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec OE

Shaik Mahaboob Shareef	(14655877P now JC-774045F)	01 Apr 2017
K Karthick	(14656365P now JC-774047M)	01 Apr 2017
Golak Prasad Das	(14660618W now JC-774056N)	01 Apr 2017

To be Nb Sub MTec Gun

Antony Dolban S	(14636953F now JC-774061Y)	01 Apr 2017
Sisir Kumar Manna	(14636960X now JC-774062F)	01 Apr 2017

Ram Kumar	(14640450N now JC-774072L)	01 Apr 2017
Ramesh S	(14621541H now JC-774074W)	01 Apr 2017
Rajendra Panda	(14639878N now JC-774071H)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec SA		
Binu Chacko	(14647059Y now JC-774037H)	20 Mar 2017/15 Mar 2017
Dhame Ashok Prabhakar	(14647134X now JC-774076F)	01 Apr 2017
C Ragunath	(14647856K now JC-774186W)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec Comm		
M John Bright	(14634377K now JC-774088W)	01 Apr 2017
Satheesh Kumar M	(14634425Y now JC-774091W)	01 Apr 2017
S Parthiban	(14623469W now JC-766373A)	03 Jan 2014/01 Sep 2011
Sahansar Pal Yadav	(14627342L now JC-766523L)	03 Jan 2014/01 Sep 2011
SB Bhawar Singh	(14617635H now JC-766370M)	25 Jan 2014/01 Sep 2011
To be Nb Sub MTec Elect		
Mahandi Hassan Khan	(14655707L now JC-774096P)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec RDR		
Bhedodkar Pravin Sudhakar	(14647246X now JC-774191F)	01 Apr 2017
To be Nb Sub MTec A Veh		
Matu Ram Saini	(14640114F now JC-774118H)	03 Apr 2017/11 Mar 2017
To be Nb Sub MTec B Veh		
Gandlal Singh	(14637155A now JC-774120A)	01 Apr 2017

* Gtd ante date seniority

ANURAG SHARMA
Under Secy

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF— [PART I—SEC. 4]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.09.09
10:45:59 +05'30'